

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2012 (फाल्गुन 30, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र में पाले से फसल की हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (विज्जु बना), पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, भोपाल के डी.बी.मॉल में जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लखन घनघोरिया, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह, सदस्य, जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से तीन बच्चों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य, ग्वालियर के कोतवाली क्षेत्र में दहेज की हत्या के आरोपी गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सत्रहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-

- (क) ग्राम आमाझाल से खमरिया मबकारा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम कारीपाथर के सिल्परा नदी पर काजवे कम स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम पकरिया के फटकहरी नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
- (घ) ग्राम ठीपरवेज बीजापुरी होकर शेहपुरा मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम शुल्क पिपरिया के प्राचीन मंदिर की मरम्मत कराये जाने,

(2) श्री कमलेश जाटव, एडवोकेट, सदस्य, मुरैना जिले के -

- (क) ग्राम पंचायत रूअर की शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (ख) तहसील पोरसा में सिविल कोर्ट खोले जाने,
- (ग) तहसील पोरसा में अनुविभागीय कार्यालय खोले जाने, तथा
- (घ) तहसील पोरसा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-

- (क) ग्राम पिपरहा में नर्मदा नदी पर घाट निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम राम पिपरिया में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) ग्राम धार पिपरिया से तिन्दनी तक मार्ग निर्माण कराये, तथा
- (घ) ग्राम धवना के हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान संकाय प्रारंभ कराये जाने,

(4) डॉ. निशित पटेल, सदस्य, कटनी जिले के-

- (क) ग्राम खुसरा के हरहाई नाले पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
- (ख) तहसील रीठी के चिरवला जलाशय की मरम्मत कराये जाने,
- (ग) तहसील रीठी के अहीरगांव जलाशय की मरम्मत कराये जाने,
- (घ) ग्राम बिलहरी के कृषकों को फसलों से हुई क्षति का मुआवजा दिलाये जाने,
- (ङ) ग्राम पटोहा के वार्ड क्रमांक 8 में हेडपंप खनन कराये जाने,
- (च) तहसील रीठी के सुगांव जलाशय एवं नगर की मरम्मत कराये जाने, तथा
- (छ) तहसील रीठी के ग्राम भरतपुर जलाशय की मरम्मत कराये जाने,

(5) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के -

- (क) ग्राम सरंडई गौराखार जलाशय एवं जामुनझिरी सेहरा जलाशयों को स्वीकृत कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम कन्हड़गांव लाखापुर में नलजल योजना स्वीकृत कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय	5. वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
1 घण्टा 30 मि.	(1) मांग संख्या –12 मांग संख्या – 25	ऊर्जा खनिज साधन
1 घण्टा	(2) मांग संख्या – 11 मांग संख्या – 46 मांग संख्या – 56 मांग संख्या – 69	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विज्ञान और टेक्नालॉजी ग्रामोद्योग सूचना प्रौद्योगिकी
1 घण्टा 30 मि.	(3) मांग संख्या – 22 मांग संख्या – 72 मांग संख्या – 53 मांग संख्या – 68 मांग संख्या – 75 मांग संख्या – 78	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय
1 घण्टा	(4) मांग संख्या – 37 मांग संख्या – 43	पर्यटन खेल और युवक कल्याण
1 घण्टा	(5) मांग संख्या – 5 मांग संख्या – 36	जेल परिवहन
1 घण्टा 30 मि.	(6) मांग संख्या – 63 मांग संख्या – 66 मांग संख्या – 76	अल्प संख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2012

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2012 की दैनिक कार्य सूची का शुद्ध पत्र

कार्यसूची के पद क्रमांक 5 “वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों पर मतदान” के उप पद (2) को शुद्ध कर निम्नानुसार पढ़ा जाय -

**निर्धारित
समय**

1 घण्टा

5. वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(2)	मांग संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
	मांग संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
	मांग संख्या – 56	ग्रामोद्योग
	मांग संख्या – 69	सूचना प्रौद्योगिकी
	मांग संख्या – 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)

**भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2012**

**राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा**